

## General Instruction (सामान्य निर्देश):

- (i) कुल 40 बहु-विकल्पीय प्रश्न हैं। (There are 40 Multiple-Choice Questions in all.)
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। (All questions are compulsory. Each question carries 1 mark.)

Q.1. पुस्तकपालन के जन्मदाता हैं (The father of Book-keeping is) :

- (A) कार्टर (Carter)      (B) मार्शल (Marshall)  
 (C) स्पाइसर और पैगलर (D) लुकास पैसियोली  
 (Spicer and Pegler)      (Lucas Pacioli)

Q.2 लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है? (Who is the user of Accounting information?)

- (A) स्वामी (Owners)      (B) प्रबंधन (Management)  
 (C) निवेशक (Investor)      (D) इनमें से सभी (All of these)

Q.3 . लेन-देन का अर्थ है (Transaction means) :

- (A) माल एवं सेवाओं का विनिमय (Exchange of goods and services)  
 (B) माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय (Exchange of goods and services in terms of money)  
 (C) माल एवं मुद्रा का विनिमय (Exchange of goods and money)  
 (D) केवल मुद्रा में विनिमय (Exchange of money only).

Q.4 . अमूर्त सम्पत्ति है (Intangible Asset is):

- (A) रूपाति (Goodwill) (B) भूमि (Land)  
(C) मशीन (Machine) (D) भवन (Building)

Q.5 . चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है (Meaning of concept of going concern is):

- (A) व्यवसाय का बन्द हो जाना (Business will close shortly)  
(B) व्यवसाय का चलते रहना (Continuity of Business)  
(C) व्यवसाय का प्रारम्भ करना (Commencement of Business)  
(D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q.6 द्विपक्षीय अवधारणा में (As per dual aspect concept in) :-

- (A) सम्पत्ति = पूँजी + दायित्व (Assets = Capital + Liabilities)  
(B) सम्पत्ति = पूँजी - दायित्व (Assets = Capital - Liabilities)  
(C) सम्पत्ति = दायित्व - पूँजी (Assets = Liabilities - Capital)  
(D) पूँजी = सम्पत्ति + दायित्व (Capital = Assets + Liabilities)

Q.7 भारतीय लेखांकन प्रमाण बनार जाते हैं (Indian Accounting Standards are formulated by):

- (A) नीति आयोग द्वारा (Neeti Ayog)  
(B) कम्पनी अधिनियम द्वारा (Companies Act)  
(C) केन्द्रीय सरकार द्वारा (Central Government)  
(D) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा (Institute of Chartered Accountants of India)

Q.8. लेखांकन के मूल प्रलेख हैं (Source documents of accounting are):

- (A) बीजक (Invoice) (B) रोकड़-पर्ची (Cash memo)  
(C) जमा पर्ची (Pay-in slip) (D) ये सभी (All of these)

Q.9 शुद्ध सम्पत्तियों पर क्या प्रभाव होता है यदि 50,000 रु० के देनदारों से रोकड़ प्राप्त होता है?

(What is the effect on the net assets if cash is received from debtors of ₹ 50,000 ?)

- (A) कोई परिवर्तन नहीं (No change)  
(B) वृद्धि (Increase)  
(C) कमी (Decrease)  
(D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q.10 प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का उदाहरण है

(Example of Natural Personal Account is):

- (A) आहरण खाता (Drawings Account)  
(B) बैंक का खाता (Bank Account)  
(C) पूँजी खाता (Capital Account)  
(D) अदत्त वेतन खाता (Outstanding Salary Account).

Q.11 रोजानामचा लेखा किया जाता है

(Journal entry is made for):

- (A) नकद बट्टा के लिए (Cash Discount)  
(B) व्यापारिक बट्टा के लिए (Trade Discount)  
(C) (A) एवं (B) दोनों के लिए (Both (A) and (B))  
(D) इनमें से कोई नहीं (None of these).

Q.12. एक कर्मचारी को दिये वेतन ₹ 10,000 किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा ?

(Salary payable to an employee ₹ 10,000 which account to be credited ?)

- (A) Salary A/c (वेतन खाता)
- (B) Employee's A/c (कर्मचारी खाता)
- (C) Cash A/c (रोकड़ खाता)
- (D) Outstanding Salary A/c (अवकाश वेतन खाता)

Q.13. खाता - बही प्रारूप में कितने खाने होते हैं ?  
How many columns in Ledger form ?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10

Q.14. जब एक लेन-देन के दोनों पहलुओं की रोकड़ बही में ही खताया जाता है तो ऐसी प्रविष्टि को कहा जाता है  
(When the two aspects of a transaction are posted in the Cash Book itself, such entry is called):

- (A) दौहरा लेखा (Double Entry)
- (B) एकल लेखा (Single Entry)
- (C) प्रति लेखा (Contra Entry)
- (D) डेबिट लेखा (Debit Entry)

Q.15. रोकड़ बही के अनुसार शेष ₹ 10,000 है। ₹ 2,000 के चेक निर्गमित किये गये परन्तु भुगतान हेतु अस्थिर नहीं किये गये। पासबुक के अनुसार शेष क्या है ?

The balance as per Cash Book is ₹10,000. Cheque for ₹2,000 were issued but not presented for payment. What would be the balance as per Pass Book?

- (A) ₹ 2000 (B) ₹ 8,000 (C) ₹ 10,000 (D) ₹ 12,000

Q.16. रोकड़ बही तथा पास बुक के दोनों को मिलान करने वाला विवरण-पत्र को कहते हैं।

A Statement to reconcile cash book and pass book balance is called.

- (A) खाताबही (Ledger A/c)  
(B) तलपट (Trial Balance)  
(C) बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement)  
(D) आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet)

Q.17. तलपट . . . . . शुद्धता बताता है।

(Trial Balance indicates . . . . . accuracy.

- (A) सैद्धान्तिक (Theoretical)  
(B) व्यवहारिक (Practical)  
(C) अंकगणितीय (Arithmetical)  
(D) लिपिकीय (Clerical)

Q.18. तलपट कौन-सी अशुद्धियाँ प्रकट नहीं करता है?

Which of the errors are not disclosed by Trial Balance?

- (A) छूट जाने वाली अशुद्धियाँ (Errors of Omission)  
(B) हिसाब की अशुद्धियाँ (Errors of Commission)  
(C) सैद्धान्तिक अशुद्धियाँ (Errors of Principles)  
(D) क्षतिपूर्क अशुद्धियाँ (Errors of Compensation).

Q. 19. प्रत्युत्सर्जन से आशय . . . . . को अपलिखित करने से है।  
Amortization refers to written off . . . . .

- (A) भूमि (Land) (B) मशीन (Machine)  
(C) कोयला खदान (Coal mines) (D) रूपाति (Goodwill)

Q. 20. एक मशीन का क्रय मूल्य ₹1,10,000 है। यदि इसका अवशेष मूल्य ₹10,000 और जीवनकाल 10 वर्ष है तो स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार इसका वार्षिक ह्रास होगा -

Purchase price of a Machine is ₹1,10,000. If its scrap value is ₹10,000 and useful life is 10 years, its yearly depreciation as per fixed instalment method will be :-

- (A) ₹100,000 (B) ₹10,000 (C) ₹11,000 (D) ₹12,000

Q. 21. ह्रास आता है (Depreciation is coming under):

- (A) AS-3 (B) AS-6 (C) AS-10 (D) AS-12

Q. 22. नए आविष्कार के कारण पुरानी मशीनरी का बेकार हो जाना कहलाता है

(Discarding the old machinery due to new invention is called)

- (A) अप्रचयन (Obsolescence) (B) अवक्षय (Depletion)  
(C) प्रत्युत्सर्जन (Amortization) (D) टूट-फूट (Wear and tear).

Q.23 हास है (Depreciation is a) :

- (A) व्यक्तिगत खाता (Personal Account)
- (B) वास्तविक खाता (Real Account)
- (C) नाममात्र खाता (Nominal Account)
- (D) इनमें से कोई नहीं (None of these).

Q.24 कौन से संचय को 'मुफ्त संचय' के रूप में भी जानते हैं ?

Which Reserve is also known as 'Free Reserve'.

- (A) सामान्य संचय (General Reserve)
- (B) विशिष्ट संचय (Special Reserve)
- (C) आयगत संचय (Revenue Reserve)
- (D) पूँजीगत संचय (Capital Reserve)

Q.25 संचय बनाया जाता है (Reserve is created from:)

- (A) लाभों से (Profits) (B) हानियों से (Losses)
- (C) सम्पत्तियों से (Assets) (D) दायित्वों से (Liabilities)

Q.26 जैद को बेचे गए ₹650 के माल को उसके खाते में ₹500 लिख दिए गए। अब जैद का खाता डेबिट किया जाएगा :

Goods sold to Zaid worth ₹650 was entered in his account ₹500. Now Zaid will be debited by):

- (A) ₹500 (B) ₹150 (C) ₹650 (D) ₹1,150

Q.27 अशुद्धियाँ होती हैं (Errors are):

- (A) न मिलने वाली अशुद्धियाँ (Undetected mistakes)
- (B) जान बूझकर की गई गलतियाँ (Intentional mistakes)
- (C) जान बूझकर न की गई गलतियाँ (Unintentional mistakes)
- (D) कपट (Frauds).

Q.28, यदि नई मशीनरी के स्थापन पर की गई मजदूरी, मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखी जाती है तो इसे कहेंगे :

If wages paid for installation of new machinery is debited to wages Account, it is :

- (A) लेख अशुद्धि (An error of commission)
- (B) सैद्धान्तिक अशुद्धि (An error of principle)
- (C) क्षतिपूर्क अशुद्धि (A compensating error)
- (D) लोप अशुद्धि (An error of omission).

Q.29, वेतन और मजदूरी को डेबिट किया जाता है

Salary and Wages is debited to :

- (A) व्यापारिक खाते में (Trading A/c)
- (B) लाभ-हानि खाते में (Profit & Loss A/c)
- (C) आर्थिक चिह्न में (Balance Sheet)
- (D) इनमें से कोई नहीं (None of these).

Q.30. एक तिथि विशेष पर सभी सम्पत्तियों व दायताओं का सारांश है

The summary of all assets and liabilities on a particular date is -

- (A) आर्थिक चिह्न (Balance Sheet)
- (B) तलपट (Trial Balance)
- (C) व्यापारिक खाता (Trading A/c)
- (D) लाभ-हानि खाता (Profit & Loss A/c)

Q.31 वित्तीय विवरणों का उद्देश्य ज्ञात करना है

The Purpose of financial statements is to ascertain:

- (A) लाभ या हानि (Profit or Loss)
- (B) वित्तीय स्थिति (Financial position)
- (C) (A) और (B) दोनों (Both (A) and (B))
- (D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q.32. सम्पत्तियों का दायित्वों पर आधिक्य कहलाता है  
(Excess of assets over liabilities is called);

- (A) पूँजी (Capital)
- (B) लाभ (Profit)
- (C) हानि (Loss)
- (D) आय (Income)

Q. 33. आप किस विवरण में सभी सम्पत्तियों, देयताएँ, आय, व्यय एवं पूँजी पायेंगे ?

In which statement would you find all of assets, liabilities, income, expenditure and capital ?

- (A) आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet)
- (B) तलपट (Trial Balance)
- (C) लाभ-हानि खाता (Profit & Loss A/c)
- (D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q. 34 इनमें से कौन चालू सम्पत्ति नहीं है ?

Which of the following is not a current Asset ?

- (A) रोकड़ (Cash) (B) स्टॉक (Stock)
- (C) भवन (Building) (D) देनदार (Debtors)

Q. 35 अदत्त व्ययों को निम्नलिखित की भाँति दर्शाया जाता है  
(Outstanding expenses are shown as):

- (A) व्यय (Expenses)
- (B) सम्पत्ति (Assets)
- (C) दायित्व (Liabilities)
- (D) (A) एवं (C) दोनों [(Both (A) and (C))]

Q. 36. यदि तलपट में अन्तिम रहतिया दिया ही तो उसे दिरवाया जायेगा -

(If closing stock appears in the trial balance then it will be shown in):

- (A) व्यापारिक खाते में (Trading A/c)
- (B) लाभ-हानि खाते में (Profit & Loss A/c)
- (C) आर्थिक चिह्न में (Balance sheet)
- (D) इनमें से कोई नहीं (None of these).

Q. 37. टैली है (Tally is):

- (A) लेखांकन सॉफ्टवेयर (Accounting Software)
- (B) डाटा का संग्रह (Collection of Data)
- (C) वेतन लेखांकन (Payroll Accounting)
- (D) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q. 38 हजारों कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन प्रपत्र शुद्धता तथा शीघ्रता से तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है  
(The software that prepares wages and salaries sheet of thousands of employees accurately and quickly is):

- (A) वेतन लेखांकन (Payroll Accounting)
- (B) प्राप्त लेखे (Accounts Receivables)
- (C) सामान्य खाताबही (General Ledger)
- (D) माल सूचि नियंत्रण (Inventory Control.)

Q.39 DBMS का पूरा नाम है

(The full form of DBMS is):

- (A) डाटाबेस मेसेजिंग सिस्टम (Data Base Messaging System)
- (B) डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (Data Base Management System)
- (C) डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम (Digital Base Management System)
- (D) डिजिटल बेस मेसेजिंग सिस्टम (Digital Base Messaging System)

Q.40 . कौन से दो अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग होते हैं ?  
(Which of the following two digits are used in Binary system?)

- (A) 0, 1      (B) 4, 1      (C) 2, 1      (D) 3, 1

—\*—\*—\*—\*—